

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 05 अक्टूबर 2022

### प्रश्न -1

निम्नलिखित में से किस बैंक के द्वारा 'खुशियों का त्योहार' नामक एक वार्षिक उत्सव अभियान शुरू किया गया था?

- A) केनरा बैंक
- B) बैंक ऑफ बड़ौदा
- C) पंजाब नेशनल बैंक
- D) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

**सही उत्तर: B**

सार्वजनिक क्षेत्र के अग्रणी बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) ने "खुशियों का त्योहार" लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसमें वार्षिक उत्सव अभियान के रूप में कई ऑफर शामिल हैं।

### प्रश्न -2

सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक ने सैमसंग इंडिया के साथ भागीदारी की है?

- A) एक्सिस बैंक
- B) HDFC बैंक
- C) कोटक महिंद्रा बैंक
- D) यस बैंक

**सही उत्तर: A**

सैमसंग और एक्सिस बैंक ने भारत में एक विशेष सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है, जो वीजा द्वारा संचालित है।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 05 अक्टूबर 2022

### प्रश्न -3

मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद को निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था?

- A) UAE
- B) सऊदी अरब
- C) कतर
- D) कुवैत

**सही उत्तर: B**

सऊदी अरब के शक्तिशाली क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद को शाही फरमान द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है।

### प्रश्न -4

निम्नलिखित में से किस बैंक ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) में 5.56% से अधिक की हिस्सेदारी हासिल की?

- A) पंजाब नेशनल बैंक
- B) केनरा बैंक
- C) बैंक ऑफ इंडिया
- D) बैंक ऑफ बड़ौदा

**सही उत्तर: C**

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) में 5.5 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी 10 करोड़ रुपये में हासिल कर ली है।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 05 अक्टूबर 2022

### प्रश्न -5

अपने प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट (EGR) सेगमेंट शुरू करने के लिए किस संगठन को सेबी से अंतिम अनुमोदन प्राप्त हुआ?

- A) बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज
- B) कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज
- C) इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज
- D) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज

**सही उत्तर: A**

बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) को अपने प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट (EGR) सेगमेंट शुरू करने के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी से अंतिम मंजूरी मिल गई है।

### प्रश्न -6

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ICRA लिमिटेड द्वारा हाल ही में भारत की GDP वृद्धि का अनुमान क्या है?

- A) 8.4%
- B) 7.9%
- C) 7.2%
- D) 5.2%

**सही उत्तर: C**

रेटिंग एजेंसी ICRA ने वित्त वर्ष FY23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 7.2% की वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को बनाए रखा है।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 05 अक्टूबर 2022

### प्रश्न -7

संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (UN SDG) एक्शन अवार्ड्स में निम्नलिखित में से किसे 'चेंजमेकर' पुरस्कार मिला?

- A) वृंदा गोवर
- B) सृष्टि बखशी
- C) संघपाली अरुणा
- D) दीपिका नारायण

**सही उत्तर: B**

मार्केटर से महिला अधिकार कार्यकर्ता बनीं सृष्टि बखशी को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (UN SDG) एक्शन अवार्ड्स में 'चेंजमेकर' पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

### प्रश्न -8

निम्नलिखित में से किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था?

- A) अंशु छाबड़ा
- B) दीपक जोशी
- C) नीलम शमी राव
- D) राजेंद्र कुमार

**सही उत्तर: D**

वरिष्ठ नौकरशाह राजेंद्र कुमार को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) का महानिदेशक नियुक्त किया गया है।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 05 अक्टूबर 2022

### प्रश्न -9

अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया?

- A) 30 सितंबर
- B) 29 सितंबर
- C) 28 सितंबर
- D) 25 सितंबर

**सही उत्तर: A**

हर साल 30 सितंबर को पेशेवर अनुवादकों को सम्मानित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है।

### प्रश्न -10

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है?

- A) 55
- B) 45
- C) 40
- D) 38

**सही उत्तर: C**

एक रिपोर्ट के अनुसार कई मापदंडों में सुधार के कारण भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में छह पायदान चढ़कर 40वें स्थान पर पहुंच गया है।